

**01**

**प्रेस नोट दिनांक-16-01-2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

आज दिनांक 16.01.2021 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व श्री अरुण चंद्र, क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक खेसरहा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सुभाष प्रजापति मय हमराह के द्वारा थाना खेसरहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2021 धारा 376,506,457 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त सलाम पुत्र हाकिम अली निवासी सुहई कनपुरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**नाम पता अभियुक्त-**

1- सलाम पुत्र हाकिम अली निवासी सुहई कनपुरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

**गिरफ्तारी समय व स्थान-**

दिनांक 16.01.2021 समय 10.30 बजे सुबह स्थान - पंचमोहनी तिराहा

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-**

- 1- उप निरीक्षक सुभाष प्रजापति थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य आरक्षी चंद्रजीत यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

**02**

**प्रेस नोट दिनांक-16-01-2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश एवं श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री जयप्रकाश दुबे, थानाध्यक्ष मोहाना द्वारा थाने की फ़ोर्स के साथ आज दिनांक 16-01-2021 को अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के तहत हिस्ट्रीशीटर सुहेल उर्फ मकालू पुत्र मोहम्मद इदरीस निवासी गोपी जोत थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को 240 गोली नशीली दवा ALPRASAFE 0.5 के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-**

1. श्री जय प्रकाश दुबे (थानाध्यक्ष)
2. उपनिरीक्षक श्री ओमप्रकाश तिवारी
3. उपनिरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह
3. हेड कांस्टेबल अंगद प्रसाद मौर्य
4. हेड कांस्टेबल दीप राज यादव
5. हेड कांस्टेबल हरिकेश यादव
6. का0 विकास सिंह

आज दिनांक-16.01.2021 को श्री अनिल कुमार राय, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती की अध्यक्षता में, श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी निरीक्षक/ थाना प्रभारी एवं समस्त शाखाओं के प्रभारी के साथ पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर के सभागार में आगामी पंचायत चुनाव के सम्बंध में गोष्ठी का आयोजन किया गया।

महोदय द्वारा सवप्रथम सभी अधिकारियों /कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामना संदेश दिया गया।

### **महोदय द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के संबंध में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी /थाना थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए-**

1. ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/ थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों के संवेदनशील गांव में भ्रमणशील रहेंगे।
2. जनपद के समस्त थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि बीट आरक्षी अपराध रजिस्टर 8 लेकर गांव का भ्रमण करेंगे तथा हिस्ट्रीशीटर /जिला बदर /टॉप टेन अपराधियों की यथास्थिति के बारे में अपने-अपने थाना प्रभारी को अवगत कराएंगे।
3. जनपद के समस्त थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायत चुनाव के तहत वर्तमान एवं पूर्व प्रधान के आपसी विवादों पर नजर बनाए रखेंगे एवं आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
4. अवैध शराब/ गांजा / जुआ के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।
5. समस्त थाना प्रभारी गांव की पुरानी रंजिशों पर नजर रखेंगे।
6. समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन की कार्रवाई करेंगे। जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज है उनके लाइसेंस रद्द कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाए।
7. समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने की थाना क्षेत्रों पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए ज्यादा से ज्यादा मुचलके पर पाबंद कराएं।

गोष्ठी में महोदय द्वारा बताया गया कि वर्तमान परिवेश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर उ0प्र0 शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को जिला स्तर पर अनुपालन कराने तथा गांव गांव में पुलिस अधिकारियों व राजस्व के अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ गोष्ठी कर उनकी समस्याओं को सुनने, तथा जनपद के मिश्रित आबादी वाले मोहल्लो/कस्बो में पर्याप्त पुलिस सुरक्षा लगाने व गोष्ठी करने व धार्मिक सस्थानों के धर्मगुरुओं के साथ गोष्ठी करने तथा सरकारी संस्थानो बस स्टाप, रेलवे स्टेशन , बिजली विभाग तथा समस्त सरकारी सस्थानो की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

महोदय द्वारा पुलिस वेलफेयर पर चर्चा करते हुए कहा गया कि प्रत्येक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का चरित्र पंजिका का अंकन अवश्य करें उससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।